



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 44] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 11, 1982/माघ 22, 1903
No. 44] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 11, 1982/MAGHA 22, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

संचार मंत्रालय

आरु तार बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 1982

सं० का० नि० 59(अ) केन्द्रीय सरकार, भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) की धारा 7, 8, 21, 28, 29, 34, 35, 43 और 74 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय डाकघर नियम, 1933 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय डाकघर (प्रथम संशोधन) नियम, 1982 है।

(2) ये 1 मार्च, 1982 को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय डाकघर नियम, 1933 के (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) नियम, 59 में “दो रुपये पच्चीस पैसे” शब्दों के स्थान पर “दो रुपये पचहत्तर पैसे” शब्द रखे जाएंगे।

3. उक्त नियम के नियम 68 में, सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्:—

सारणी

- | | |
|--|-----------------------|
| (i) पत्र, हवाई पत्र पोस्ट कार्ड और पैकेट | दो रुपये पचहत्तर पैसे |
| (ii) मुद्रित सामग्री का भारी बैला | चौदह रुपये |

4. उक्त नियमों के नियम 112 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

“112. अन्तर्वेशित मनीग्रार्डों के जारी करने के लिए निम्नलिखित दरों पर कमीशन वसूल किया जाएगा, अर्थात्:—
प्रत्येक 10 रुपये या उसके किसी भाग के प्रेषण के लिए 30 पैसे

परन्तु सैनिक अभिलेखा कार्यालय द्वारा बुक किए गए परिवार नियतन मनीग्रार्ड पर कमीशन की रकम बुक किए गए परिवार नियतन मनीग्रार्ड की कुल रकम पर 2.75 प्रतिशत की दर से लगाई जाएगी और इस प्रकार संगणना करने के लिए 0.5 पैसे से कम भाग को हिसाब में नहीं लिया जायगा और 0.5 पैसे के बराबर और उनसे अधिक भाग को एक पैसा माना जाएगा।

5. उक्त नियमों के नियम 128 में, “घाठ” शब्द के स्थान पर “दस” शब्द रखा जाएगा।

6. उक्त नियमों के नियम 194 में “रजिस्ट्रीकरण लिफाके” शीर्षक के नीचे, “दो रुपये साठ पैसे घन दस पैसे लेखन सामग्री प्रभार” शब्दों के स्थान पर “तीन रुपये दस पैसे घन दस पैसे लेखन सामग्री प्रभार” शब्द रखे जायेंगे।

[का० सं० 1-6/82-भार]

भार० भार० सचिव, अपर सचिव, भारत सरकार
और सदस्य डाकतार बोर्ड

टिप्पण—मूल नियमों का निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया है, अर्थात्:—सा०का० नि० 1126 तारीख 21-7-67
सा० का० नि० 554 तारीख 7-8-68 सा० का० नि० 1197

तारीख 14-5-69, सां कां निं 93 (अ) तारीख 25-2-76,
सां कां निं 304 (अ) तारीख 29-5-78, सां कां निं
974 तारीख 26-3-57, सां कां निं 654 तारीख 7-5-68,
सां कां निं 93 (अ) तारीख 25-2-76 नियम 59, 68
और 112 से संबंधित।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Posts and Telegraphs Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th February, 1982

G.S.R. 59 (E).—In exercise of the powers conferred by sections 7, 8, 21, 28, 29, 34, 35, 43 and 74 of the Indian Post Office Act, 1898 (6 of 1898), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Post Office Rules, 1933, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Post Office (First Amendment) Rules, 1982.
- (2) They shall come into force on the 1st day of March, 1982.
2. In the Indian Post Office Rules, 1933 (hereinafter referred to as the said rules) in rule 59 for the words "Rupee two and twenty five paise", the words "rupees two and seventy five paise" shall be substituted.
3. In rule 68 of the said rules, for the Table, the following Table shall be substituted, namely :—

TABLE

1	2
(i) Letter, air letter, postcard and packet,	Rupees two and seventy five paise.
(ii) Bulk bag of printed matter	Rupees fourteen

4. For rule 112 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"112. A commission on the issue of inland money orders shall be charged at the following rates, namely :—

For remittance of every Rs. 10 or part thereof 30 paise. Provided that the amount of commission payable on a Family Allotment Money Order Booked by an Army Record Office, shall be calculated at 2.75 per cent, of the total amount of the Family Allotment Money Orders booked and in making such calculations a fraction of a paise less than 0.5 paise shall be disregarded and a fraction of paise equal to or exceeding 0.5 paise shall be regarded as one paise."

5. In rule 128 of the said rules, for the word "eight", the word "ten" shall be substituted.
6. In rule 194 of the said rules, under the heading "Registration Envelopes", for the words "Rupees two and sixty paise plus ten paise stationary charges" the words "Rupees three and ten paise plus ten paise stationery charges" shall be substituted.

[File No. 1-6/82-R]

R. R. SAVOON,

Additional Secy. to the Government of India and
Member, P&T Board.

Note : The above principle rules have been amended vide G.S.R. No. 1126 dated 21-7-67, G.S.R. No. 854 dated 7-5-68, G.S.R. No. 1197 dated 14-5-69, G.S.R. No. 93(E) dated 25-2-76, G.S.R. No. 304(E) dated 29-5-78, S.R.O. No. 974 dated 26-3-57, G.S.R. No. 854 dated 7-5-68, G.S.R. No. 93(E) dated 25-2-76 relating to Rule 59, 68 and 112.